

Singhown to Barrigarba

FDR

Schedule XLV Form No. 134.

JHANJHARPUR

DIVISION

MADHUPUR

SUB-DIVISION

1796

Measurement Book

INDEX	PAGE
प्रतिक्रिया के तरीके	प्रतिक्रिया के तरीके
प्रतिक्रिया के तरीके	प्रतिक्रिया के तरीके
प्रतिक्रिया के तरीके	प्रतिक्रिया के तरीके
प्रतिक्रिया के तरीके	प्रतिक्रिया के तरीके

(Signature)

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
झंडापुर

मिस्टर

ठड़पुर

INDEX	PAGE
प्रतिक्रिया के तरीके	प्रतिक्रिया के तरीके
प्रतिक्रिया के तरीके	प्रतिक्रिया के तरीके
प्रतिक्रिया के तरीके	प्रतिक्रिया के तरीके
प्रतिक्रिया के तरीके	प्रतिक्रिया के तरीके
प्रतिक्रिया के तरीके	प्रतिक्रिया के तरीके

Mr - E.D.

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
CH - FDR.					

Name of Work - Repair of flood damage.

road from Singrauli to Basiyarba

under FDR in modelary block

Agency - Departmental

Date of measurement/Entry - 10/5/21

Authority - S.E. T.A. Letter No: 934/06/5/21

(1)	const. of embankment with approved material obtained from borrow pits -	$1 \times 24.00 \times \frac{10.00 + 4.00}{2} \times 1.56 = 262.08 \text{ m}^3$
		$1 \times 45.00 \times \frac{8.00 + 5.00}{2} \times 1.20 = 351.00 \text{ m}^3$
		613.08 m^3
	@ Rs 173.10/m ³	Rs 106124 = 00 ①
	$1 \times 3.20 \times 3.20 \times 0.50 = 5.12 \text{ m}^3$	
(2)	Pv and filling bricks bats in ditches including cost of brick bats and labours --- all complete.	$1 \times 13.00 \times \frac{8.00 + 4.00}{2} \times 1.33 = 103.74 \text{ m}^3$

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
$1 \times 6.00 \times 1.50 \times 1.75$					$= 15.75 \text{ m}^3$
$1 \times 10.00 \times \frac{1.00 + 1.50}{2} \times 1.00$					$= 12.50 \text{ m}^3$
$1 \times 3.00 \times 2.50 \times 0.45$					$= 3.38 \text{ m}^3$
$1 \times 2.50 \times 2.50 \times 0.45$					$= 2.81 \text{ m}^3$
$2 \times 6.00 \times 4.00 \times 0.45$					$= 216.00 \text{ m}^3$
					354.18 m^3
$\text{C} \text{Rs } 1867.76/\text{m}^3$					$\text{Rs } 6,61,523 = 00$
Add 12% G.S.T.					$\text{Rs } 92118 = 00$
Add 1% L.C.					$\text{Rs } 9676 = 00$
Add S.F.					$\text{Rs } 39783 = 0.0$

				Rs 9,07,224 = 00
(3) G.S.T	00	12	12	18

Continuation